



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 ज्येष्ठ 1946 (श0)

(सं० पटना 507) पटना, बुधवार, 12 जून 2024

सं० 27/आरोप-01-06/2023 सा0प्र0—5140

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

28 मार्च 2024

श्री राजेश कुमार, बि०प्र०से० कोटि क्रमांक 701/11 तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा के विरुद्ध परिवहन विभाग के पत्रांक 461 दिनांक 25.01.2023 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। श्री कुमार के विरुद्ध मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम एम्बुलेंस योजना के कार्यों में लापरवाही, अनावश्यक रूप से वाहनों का निबंधन लम्बित रखने, के० एम० एस० पेंडिंग रखने, राजस्व संग्रहण में लापरवाही एवं सड़क सुरक्षा संबंधित कार्यों में लापरवाही, चालान अनुज्ञप्ति लंबित रखने, ब्रेथ एनालाईजर मशीन से वाहन चालकों का श्वास परीक्षण नहीं करने, परिवहन विभाग से संबंधित कार्यों के प्रति उदासीनता बरते जाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित है।

परिवहन विभाग से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक 3985 दिनांक 27.02.2023 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण से मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण (दिनांक 17.06.2023) पर विभागीय पत्रांक 12771 दिनांक 06.07.2023 द्वारा परिवहन विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। समारोपरान्त परिवहन विभाग के पत्रांक 8871 दिनांक 28.11.2023 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री कुमार के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उक्त स्पष्टीकरण पर परिवहन विभाग द्वारा दिये गये मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम एम्बुलेंस योजना के कार्यान्वयन में लापरवाही बरती गयी, जिससे निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। ड्राइविंग लाईसेन्स आवेदनों के ससमय निष्पादन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। वाहन विक्रेताओं द्वारा HSRP Fitment Entry ससमय नहीं किया जा रहा था तो एजेंसी के विरुद्ध ठोस कार्रवाई कर KMS Pendency को कम किया जा सकता था, जो श्री कुमार द्वारा नहीं किया गया। साथ ही दिनांक 08.01.2023 से 10.01.2023 तक एक भी वाहन चालक का ब्रेथ एनालाईजर मशीन के माध्यम से श्वास परीक्षण नहीं किया गया। समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 22991 दिनांक 19.12.2023 द्वारा श्री कुमार को (1) निन्दन (आरोप वर्ष 2022-23) (2) दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित किया गया।

उक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री कुमार ने पत्रांक 213 दिनांक 06.03.2024 द्वारा दिनांक 12.03.2024 को दंडादेश पारित होने की तिथि दिनांक 19.12.2023 से 82 दिनों के बाद एक पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। विलम्ब के संबंध में आरोपी पदाधिकारी के द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।

सक्षम प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरान्त बिहार सी0सी0ए0 रूल्स, 2005 के भाग—vii की कंडिका 25 के आलोक में श्री कुमार के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को कालबाधित मानते हुए अस्वीकृत किया गया है।
आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रविन्द्र नाथ चौधरी,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 507-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>